



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2011, शनिवार/अग्रहायण 20—अग्रहायण 26, 1933
No. 32] NEWDELHI, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2011, SATURDAY/AGRAHAYANA 20—AGRAHAYANA 26, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications Issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2011

आ.अ.168.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा विधान सभा के लिए अक्तूबर, 2009 में हुए साधारण निर्वाचन, जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूप निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है।

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता श्री/सर्वश्री/श्रीमती	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हरियाणा विधान सभा का साधारण निर्वाचन-2009	8-जगाधरी	सुदेश रानी, मकान नं. 431, बैंक कालोनी, निकट शनि मन्दिर, यमुनानगर, हरियाणा।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	हरियाणा विधान सभा का साधारण निर्वाचन-2009	8-जगाधरी	प्रमोद शर्मा, 644, लोहरान गली, जागाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा ।	निर्वाचन व्यर्थों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
3.	-वही-	9-यमुनानगर	सुशील कुमार, 710, मॉडल कालोनी, यमुनानगर, हरियाणा ।	-वही-
4.	-वही-	10-रारौर	संजीव कुमार, गांव जामपुर, डा. औरंगाबाद, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा ।	-वही-
5.	-वही-	23-असन्ध	सुलतान सिंह, ग्राम-व डा. जुण्डला, तहसील व जिला करनाल, हरियाणा ।	-वही-
6.	-वही-	-वही-	महा सिंह, मानपुरा (बल्ला), तहसील असन्ध, जिला करनाल, हरियाणा ।	-वही-
7.	-वही-	62-रोहतक	राहुल जैन, 224/9, पुराना बाबरा चौक, रोहतक, हरियाणा ।	-वही-
8.	-वही-	78-सोहना	सुबे सिंह, गांव पढैनी, तहसील तावडू, जिला-मेवात, हरियाणा ।	-वही-
9.	-वही-	85-पृथला	प्रहलाद सिंह, गांव प्याला, डाकखाना असावटी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा ।	-वही-
10.	-वही-	-वही-	सतपाल, गांव, डाकखाना असावटी, तहसील व जिला पलवल, हरियाणा ।	-वही-
11.	-वही-	87-बडखल	ममता, मकान नं. 101, फतेहपुर चन्दीला, फरीदाबाद, हरियाणा ।	-वही-
12.	-वही-	89- फरीदाबाद,	राजेश, डी-402, ग्राम अजरौंदा, सैक्टर-15, फरीदाबाद हरियाणा ।	-वही-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	हरियाणा विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2009	90-तिगांव	राज किशोर, मकान नं. 468, राजीव नगर, गांव एतमादपुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।

[सं. 76/हरियाणा-वि. स./2009(7)]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA ORDER

New Delhi, the 7th December, 2011

O.N.168.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly of Haryana held in October, 2009 as specified in column (2) and held from constituency correspondingly specified in column (3) against his names, has failed to lodge account of his election expenses as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice by the Election Commission of India or after considering the representations made by him, if any, the Election Commission of India is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares the persons specified in column (4) of the Table enclosed to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and address of contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2009	8-Jagadhri	Smt. Sudesh Rani, H. No. 431, Bank Colony, Near Shani Mandir, Yamunanagar, Haryana.	Failed to lodge any account of his election expenses.
2.	-do-	-do-	Shri Parmod Sharma, 644, Lohran Street, Jagadhri, District Yamunanagar, Haryana.	-do-
3.	-do-	9-Yamunanagar	Shri Shushil Kumar, 710, Model Colony, Yamunanagar, Haryana.	-do-
4.	-do-	10- Radaur	Shri Sanjeev Kumar, Village Jampur, P.O. Aurangabad, Teh. Jagadhri, District Yamunanagar, Haryana.	-do-
5.	-do-	23-Assandh	Shri Sultan Singh, V.P.O. Jundla, Teh.& District. Karnal, Haryana	-do-
6.	-do-	-do-	Shri Maha Singh, Mannpura (Ballah), Teh.Assandh, District Karnal, Haryana.	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	General Election to the Legislative Assembly, 2009	62-Rohtak	Shri Rahul Jain, 224/9, Old Babra Chowk, Rohtak, Haryana.	Failed to lodge any account of his election expenses.
8.	-do-	78-Sohna	Shri Sube Singh, Village Padheni, Tehsil-Tauru District Mewat, Haryana.	-do-
9.	-do-	85-Prithla	Shri Prahlad Singh, Village-Payala, P.O. Asaoti, District-Palwal, Haryana.	-do-
10.	-do-	-do-	Shri Satpal, Village & P.O. Asoati, Tehsil & District Palwal, Haryana.	-do-
11.	-do-	87-Badkhal	Smt. Mamta, H.No.101, Fatehpur, Chandila, Faridabad, Haryana.	-do-
12.	-do-	89-Faridabad	Shri Rajesh, D-402, Village Ajronda, Sector-15, Faridabad, Haryana.	-do-
13.	-do-	90- Tigaon	Shri Raj Kishor, H.No. 468, Rajiv Nagar, Village-Etmadpur, Faridabad, Haryana.	-do-

[No. 76/HN-LA/2009 (7)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2011

आ.अ.169.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग गोवा सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री गोनेस कोयू, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री एस. कुमार स्वामी, आई.ए.एस. (एजीएमयू : 91) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गोवा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री एस. कुमार स्वामी, आई.ए.एस., गोवा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री एस. कुमार स्वामी, आई.ए.एस., मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा के रूप में कार्य करते हुए गोवा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/गोवा/2010/नि.यो.अ.]

आदेश से,

सुमीत मुखर्जी, सचिव

New Delhi, the 13th December, 2011

O.N. 169.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Goa hereby nominates Shri S. Kumar Swamy, IAS (AGMU : 91) as the Chief Electoral Officer for the State of Goa with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Gonesh Koyu, IAS.

2. Shri S. Kumar Swamy, IAS (AGMU : 91) shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Goa which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri S. Kumar Swamy, IAS (AGMU : 91) while functioning as the Chief Electoral Officer, Goa shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Goa except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/GOA/2010/EPS]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Secy.